

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)



विद्या-परिषद् की दूसरी बैठक

कार्यवृत्त

17 एवं 18 अगस्त, 2004

सभा कक्ष, ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, दत्तपुर (वर्धा)



महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की वर्धा में आयोजित दूसरी (द्विदिवसीय) बैठक

दिनांक : 17-18 अगस्त, 2004

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की दूसरी (द्विदिवसीय) बैठक दिनांक दिनांक 17 एवं 18 अगस्त, 2004 को कुलपति की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति परिसर, वर्धा स्थित विश्वविद्यालय के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

| | | | |
|-----|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | प्रो. जी. गोपीनाथन | : | अध्यक्ष एवं कुलपति |
| 2. | डा. (श्रीमती) माजिदा असद | : | सदस्य |
| 3. | डा. एस. तंकमणि अम्मा | : | सदस्य |
| 4. | श्रीमती मृदुला गर्ग | : | सदस्य |
| 5. | श्री बालकृष्ण पिल्लई | : | सदस्य |
| 6. | श्री गोविंद मिश्र | : | सदस्य |
| 7. | प्रो. इंद्रनाथ चौधरी | : | सदस्य |
| 8. | प्रो. राम गोपाल बजाज | : | सदस्य |
| 9. | श्री मधु मंगेश कर्णिक | : | सदस्य |
| 10. | डा. टी. आर. भट्ट | : | सदस्य |
| 11. | डा. रामदयाल मुण्डा | : | सदस्य |
| 12. | डा. राम कृपाल तिवारी | : | पदेन सचिव एवं कुलसचिव, म.ग.अ.हि.वि. |

कुछ सदस्यों, प्रो. दया कृष्ण, डा. अशोक आर. केलकर और डा. यू. आर. अनन्तमूर्ति से उनका स्वास्थ्य ठीक न होने एवं अन्य निजी कारणों से विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। अन्य सदस्य पूर्व प्रतिश्रुत होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित न हो सके।

1) विद्या-परिषद् की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की पहली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेज दिया गया था। कृपया इसमें लिए गए निर्णयों की पुष्टि एवं अनुमोदन करें।

कार्यवृत्त इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :

- (i) विद्या परिषद् की पहली बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार विज्ञान प्लान पर चर्चा हेतु बतौर 'विशेष आमंत्रित' कार्यपरिषद् के सदस्य, प्रो. के. के. गोस्वामी भी मौजूद थे।